



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27062024-254996
CG-MH-E-27062024-254996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2353]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2024/आषाढ 6, 1946

No. 2353]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2024/ASHADHA 6, 1946

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 26 जून, 2024

का.आ. 2474(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 2008 कहा गया है) की धारा 20 क के उप-खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के वडोदरा जिले “डभोई समलाया आमान परिवर्तन परियोजना (46.45 कि.मी.), लोटना रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज (7.70 कि.मी.) और लोटना बाय पास लाइन (7.55 कि.मी.) सहित “ नाम कि विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है;

उक्त भूमि के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी **वाघोडीया** तालुका सेवासदन, कार्यालय **डभोई** और प्रांत अधिकारी **सावली** तालुका सेवासदन, कार्यालय **सावली**, जिला वडोदरा को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई

का अवसर प्रदान करेगा और आक्षेपों की सुनवाई और जाँच करने के पश्चात् यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि की भूमि भूमि योजना और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में विशेष रेलवे परियोजना –“ डभोई- समलाया आमान परिवर्तन परियोजना (46.45 कि.मी.), लोटना रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज (7.70 कि.मी.) और लोटना बाय पास लाइन (7.55 कि.मी.) सहित ” परियोजना के लिए संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण,

राज्य: गुजरात

जिला : वडोदरा

अनुक्रमांक	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
तालुका: वाघोडीया		जिला: वडोदरा		
गांव : टिम्बी				
1	241	सरकारी	पडतर	252
तालुका: सावली		जिला: वडोदरा		
गांव : गेंगड़िया				
1	343	निजी	कृषि/जरायत	30203
2	82	निजी	कृषि/जरायत	52514
3	170	निजी	कृषि/जरायत	1572
4	169	निजी	कृषि/जरायत	6393
5	168	निजी	कृषि/जरायत	6854
6	167	निजी	कृषि/जरायत	3757
7	165	निजी	कृषि/जरायत	1424
8	166	निजी	कृषि/जरायत	5025
9	164	निजी	कृषि/जरायत	1943
10	162	निजी	कृषि/जरायत	977
11	157/2	निजी	कृषि/जरायत	13857
12	163/1	सरकारी	ग्रामपंचायत पडतर	984
13	149	निजी	कृषि/जरायत	2304
14	154/1	निजी	कृषि/जरायत	505
15	156/1	निजी	कृषि/जरायत	471
16	150	निजी	कृषि/जरायत	981
17	145/2	निजी	कृषि/जरायत	1099

18	143/1	निजी	कृषि/जरायत	1172
19	354	निजी	कृषि/जरायत	1284
20	139	निजी	कृषि/जरायत	1536
21	352	निजी	कृषि/जरायत	1797
22	282/3	निजी	कृषि/जरायत	1724
23	353	निजी	कृषि/जरायत	944
24	281/1	निजी	कृषि/जरायत	1364
25	274/1	निजी	कृषि/जरायत	922
26	274/2	निजी	कृषि/जरायत	1014
27	349	निजी	कृषि/जरायत	376
28	355	सरकारी	ग्रामपंचायत पडतर	136
29	284	सरकारी	ग्रामपंचायत पडतर	1150
30	344	सरकारी	ग्रामपंचायत पडतर	169
31	299	सरकारी	ग्रामपंचायत पडतर	14576
32	304	निजी	कृषि/जरायत	51
33	286	सरकारी	ग्रामपंचायत पडतर	4690
34	285	सरकारी	ग्रामपंचायत पडतर	16324
35	112	निजी	कृषि/जरायत	20
36	113	निजी	कृषि/जरायत	596
37	114	निजी	कृषि/जरायत	1594
38	106	निजी	कृषि/जरायत	2120
39	86/2	निजी	कृषि/जरायत	807
40	87	निजी	कृषि/जरायत	1020
41	88	निजी	कृषि/जरायत	318
42	91/2	निजी	कृषि/जरायत	1016
43	91/1	निजी	कृषि/जरायत	5547
44	केनाल	सरकारी	केनाल	2434
45	9	निजी	कृषि/जरायत	1533
46	10	निजी	कृषि/जरायत	1539
47	11	निजी	कृषि/जरायत	1831
48	12	निजी	कृषि/जरायत	1692
49	20/पैकी /1	निजी	कृषि/जरायत	3286
50	5	निजी	कृषि/जरायत	4464
51	13	निजी	कृषि/जरायत	5912
52	14	निजी	कृषि/जरायत	1918
53	रोड	सरकारी	रोड	1784

54	37	निजी	कृषि/जरायत	2157
55	38	निजी	कृषि/जरायत	1484
56	39/1	सरकारी	ग्रामपंचायत पडतर	2639
57	39/2	निजी	कृषि/जरायत	4360
58	40	निजी	कृषि/जरायत	548
59	41	निजी	कृषि/जरायत	715
60	36	निजी	कृषि/जरायत	11024
61	46	निजी	कृषि/जरायत	1554
62	47/2-3	निजी	कृषि/जरायत	3529
63	35	निजी	कृषि/जरायत	960
64	47/1	निजी	कृषि/जरायत	826
65	48	निजी	कृषि/जरायत	7764
66	51	निजी	कृषि/जरायत	983
67	50	निजी	कृषि/जरायत	4489
68	49/2	निजी	कृषि/जरायत	1452
69	49/1	निजी	कृषि/जरायत	2939
70	53	निजी	कृषि/जरायत	4722
71	54	निजी	कृषि/जरायत	2695
72	82/13	निजी	कृषि/जरायत	1279
73	82/7	निजी	कृषि/जरायत	2059
74	82/6	निजी	कृषि/जरायत	2899
75	82/5	निजी	कृषि/जरायत	3268
76	82/4	निजी	कृषि/जरायत	1810
77	82/3	निजी	कृषि/जरायत	584
78	82/2	निजी	कृषि/जरायत	1440
79	82/1	निजी	कृषि/जरायत	568
80	61	निजी	कृषि/जरायत	3076
81	60	निजी	कृषि/जरायत	4058
82	59	निजी	कृषि/जरायत	22
83	रोड	सरकारी	रोड	1639
84	50	निजी	कृषि/जरायत	177
85	64	निजी	कृषि/जरायत	730
86	58	निजी	कृषि/जरायत	3126
87	57	निजी	कृषि/जरायत	2717
88	79/56	निजी	कृषि/जरायत	7399
89	79/57	निजी	कृषि/जरायत	3455

90	79/58	निजी	कृषि/जरायत	3038
91	79/59	निजी	कृषि/जरायत	4629
92	79/60	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	पडतर	4619
93	79/61	निजी	कृषि/जरायत	4478
94	79/63	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	पडतर	4495
95	79/65	निजी	कृषि/जरायत	2812
96	79/66	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	पडतर	3795
97	79/67/ब	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	पडतर	3508
98	79/68/ब	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	पडतर	371
99	रोड	सरकारी	रोड	1059
100	79/6	निजी	कृषि/जरायत	13616
101	79/7	निजी	कृषि/जरायत	6093
			कुल (वर्गमीटर)	367182.00
तालुका: सावली		जिला: वडोदरा		
गांव : लोटना				
1	136	निजी	कृषि/जरायत	1928
			कुल (वर्गमीटर)	1928
तालुका: सावली		जिला: वडोदरा		
गांव : रानीपुरा				
1	52/3	निजी	कृषि/जरायत	4785
2	52/39	निजी	कृषि/जरायत	3278
			कुल (वर्गमीटर)	8063
तालुका: सावली		जिला: वडोदरा		
गांव : घंटियाड				
1	216	सरकारी	कृषि/जरायत	3379
2	217	निजी	कृषि/जरायत	13095
3	215	निजी	कृषि/जरायत	2126
4	213/1	निजी	कृषि/जरायत	2086
5	218/1	निजी	कृषि/जरायत	1285
6	219	निजी	कृषि/जरायत	5311
7	213	निजी	कृषि/जरायत	1745
8	212	निजी	कृषि/जरायत	3502
9	220	निजी	कृषि/जरायत	935
10	221	निजी	कृषि/जरायत	3623

11	227	निजी	कृषि/जरायत	360
12	222	निजी	कृषि/जरायत	4454
13	211	निजी	कृषि/जरायत	235
14	223	निजी	कृषि/जरायत	1031
15	210	निजी	कृषि/जरायत	2504
16	224	निजी	कृषि/जरायत	5281
17	228	निजी	कृषि/जरायत	384
18	225	सरकारी	कृषि/जरायत	7226
19	183	निजी	कृषि/जरायत	3016
20	240	निजी	कृषि/जरायत	466
21	260	निजी	कृषि/जरायत	13737
22	182	निजी	कृषि/जरायत	919
23	262	निजी	कृषि/जरायत	4335
24	276	निजी	कृषि/जरायत	273
25	263	निजी	कृषि/जरायत	242
			कुल (वर्गमीटर)	81550

[फा. सं. ई.ऑफिस ई-379287-10]

के. एल. मीना, मुख्य परियोजना प्रबंधक निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th June, 2024

S.O. 2474(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act 2008), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Gauge Conversion of Dabhoi Samalaya (46.45 Km) including Lotna Railway fly over bridge (7.70 Km) and Lotna bye pass line (7.55 Km) Project in District Vadodara in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer Waghodiya Taluka Waghodiya Sevasadan office Dabhoi and Prant officer Savli Taluka Sevasadan, office Savli, District Vadoadara, in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely: Gauge Conversion of Dabhoi Samalaya (46.45 Km) including Lotna Railway fly over bridge (7.70 Km) and Lotna bye pass line (7.55 Km) Project in the state of Gujarat.

State : GUJARAT

District : Vadoadara

Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm)
Taluka : Waghodiya		District : Vadodara		
Village : Timbi				
1	241	Government Land	Padtar	252
Taluka : Savli		District : Vadodara		
Village : Gangdia				
1	343	Private Land	Agricultural/Jarayat	30203
2	82	Private Land	Agricultural/Jarayat	52514
3	170	Private Land	Agricultural/Jarayat	1572
4	169	Private Land	Agricultural/Jarayat	6393
5	168	Private Land	Agricultural/Jarayat	6854
6	167	Private Land	Agricultural/Jarayat /	3757
7	165	Private Land	Agricultural/Jarayat	1424
8	166	Private Land	Agricultural/Jarayat	5025
9	164	Private Land	Agricultural/Jarayat	1943
10	162	Private Land	Agricultural/Jarayat	977
11	157/2	Private Land	Agricultural/Jarayat	13857
12	163/1	Government Land	Grampanchayat Padtar	984
13	149	Private Land	Agricultural/Jarayat	2304
14	154/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	505
15	156/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	471
16	150	Private Land	Agricultural/Jarayat	981
17	145/2	Private Land	Agricultural/Jarayat	1099
18	143/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	1172
19	354	Private Land	Agricultural/Jarayat	1284
20	139	Private Land	Agricultural/Jarayat	1536
21	352	Private Land	Agricultural/Jarayat	1797
22	282/3	Private Land	Agricultural/Jarayat	1724
23	353	Private Land	Agricultural/Jarayat	944
24	281/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	1364
25	274/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	922
26	274/2	Private Land	Agricultural/Jarayat	1014
27	349	Private Land	Agricultural/Jarayat	376
28	355	Government Land	Grampanchayat Padtar	136
29	284	Government Land	Grampanchayat Padtar	1150
30	344	Government Land	Grampanchayat Padtar	169
31	299	Government Land	Grampanchayat Padtar	14576
32	304	Private Land	Agricultural/Jarayat	51
33	286	Government Land	Grampanchayat Padtar	4690
34	285	Government Land	Grampanchayat Padtar	16324
35	112	Private Land	Agricultural/Jarayat	20
36	113	Private Land	Agricultural/Jarayat	596
37	114	Private Land	Agricultural/Jarayat	1594
38	106	Private Land	Agricultural/Jarayat	2120
39	86/2	Private Land	Agricultural/Jarayat	807
40	87	Private Land	Agricultural/Jarayat	1020
41	88	Private Land	Agricultural/Jarayat	318
42	91/2	Private Land	Agricultural/Jarayat	1016
43	91/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	5547
44	CANAL	Government Land	Canal	2434

45	9	Private Land	Agricultural/Jarayat	1533
46	10	Private Land	Agricultural/Jarayat	1539
47	11	Private Land	Agricultural/Jarayat	1831
48	12	Private Land	Agricultural/Jarayat	1692
49	20/PAIKI/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	3286
50	5	Private Land	Agricultural/Jarayat	4464
51	13	Private Land	Agricultural/Jarayat	5912
52	14	Private Land	Agricultural/Jarayat	1918
53	ROAD	Government Land	Road	1784
54	37	Private Land	Agricultural/Jarayat	2157
55	38	Private Land	Agricultural/Jarayat	1484
56	39/1	Government Land	Agricultural/Jarayat	2639
57	39/2	Private Land	Agricultural/Jarayat	4360
58	40	Private Land	Agricultural/Jarayat	548
59	41	Private Land	Agricultural/Jarayat	715
60	36	Private Land	Agricultural/Jarayat	11024
61	46	Private Land	Agricultural/Jarayat	1554
62	47/2-3	Private Land	Agricultural/Jarayat	3529
63	35	Private Land	Agricultural/Jarayat	960
64	47/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	826
65	48	Private Land	Agricultural/Jarayat	7764
66	51	Private Land	Agricultural/Jarayat	983
67	50	Private Land	Agricultural/Jarayat	4489
68	49/2	Private Land	Agricultural/Jarayat	1452
69	49/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	2939
70	53	Private Land	Agricultural/Jarayat	4722
71	54	Private Land	Agricultural/Jarayat	2695
72	82/13	Private Land	Agricultural/Jarayat	1279
73	82/7	Private Land	Agricultural/Jarayat	2059
74	82/6	Private Land	Agricultural/Jarayat	2899
75	82/5	Private Land	Agricultural/Jarayat	3268
76	82/4	Private Land	Agricultural/Jarayat	1810
77	82/3	Private Land	Agricultural/Jarayat	584
78	82/2	Private Land	Agricultural/Jarayat	1440
79	82/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	568
80	61	Private Land	Agricultural/Jarayat	3076
81	60	Private Land	Agricultural/Jarayat	4058
82	59	Private Land	Agricultural/Jarayat	22
83	ROAD	Government Land	Road	1639
84	50	Private Land	Agricultural/Jarayat	177
85	64	Private Land	Agricultural/Jarayat	730
86	58	Private Land	Agricultural/Jarayat	3126
87	57	Private Land	Agricultural/Jarayat	2717
88	79/56	Private Land	Agricultural/Jarayat	7399
89	79/57	Private Land	Agricultural/Jarayat	3455
90	79/58	Private Land	Agricultural/Jarayat	3038
91	79/59	Private Land	Agricultural/Jarayat	4629
92	79/60	SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM	Padtar	4619
93	79/61	Private Land	Agricultural/Jarayat	4478
94	79/63	SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM	Padtar	4495
95	79/65	Private Land	Agricultural/Jarayat	2812
96	79/66	SARDAR SAROVAR NARMADA	Padtar	3795

		NIGAM		
97	79/67/b	SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM	Padtar	3508
98	79/68/b	SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM	Padtar	371
99	ROAD	Government Land	Road	1059
100	79/6	Private Land	Agricultural/Jarayat	13616
101	79/7	Private Land	Agricultural/Jarayat	6093
			TOTAL (Sqm.)	367182.00
Taluka : Savli		District : Vadodara		
Village : Lotna				
1	136	Private Land	Agricultural/Jarayat	1928
Taluka : Savli		District : Vadodara		
Village : Ranipura				
1	52/3	Private Land	Agricultural/Jarayat	4785
2	52/39	Private Land	Agricultural/Jarayat	3278
			TOTAL (Sqm.)	8063
Taluka : Savli		District : Vadodara		
Village : Ghantiyad				
1	216	Sarkari Padtar	Agricultural/Jarayat	3379
2	217	Private Land	Agricultural/Jarayat	13095
3	215	Private Land	Agricultural/Jarayat	2126
4	213/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	2086
5	218/1	Private Land	Agricultural/Jarayat	1285
6	219	Private Land	Agricultural/Jarayat	5311
7	213	Private Land	Agricultural/Jarayat	1745
8	212	Private Land	Agricultural/Jarayat	3502
9	220	Private Land	Agricultural/Jarayat	935
10	221	Private Land	Agricultural/Jarayat	3623
11	227	Private Land	Agricultural/Jarayat	360
12	222	Private Land	Agricultural/Jarayat	4454
13	211	Private Land	Agricultural/Jarayat	235
14	223	Private Land	Agricultural/Jarayat	1031
15	210	Private Land	Agricultural/Jarayat	2504
16	224	Private Land	Agricultural/Jarayat	5281
17	228	Private Land	Agricultural/Jarayat	384
18	225	Government Land	Agricultural/Jarayat	7226
19	183	Private Land	Agricultural/Jarayat	3016
20	240	Private Land	Agricultural/Jarayat	466
21	260	Private Land	Agricultural/Jarayat	13737
22	182	Private Land	Agricultural/Jarayat	919
23	262	Private Land	Agricultural/Jarayat	4335
24	276	Private Land	Agricultural/Jarayat	273
25	263	Private Land	Agricultural/Jarayat	242
			TOTAL (Sqm.)	81550

[F. No. E Office E-379287-10]

K. L. MEENA, Chief Project Manager (C)-I